

01

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 10-01-2021

त्रिलोकपुर पुलिस का एक छोटा सा प्रयास, छात्राएं हो रही शारीरिक रूप से दक्ष, महिला आरक्षी दिव्या सिंह ने खुद को पीछे रखकर छात्राओं का बढ़ाया उत्साह ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं को जागरूक करने व नारी सशक्तीकरण" अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री उमेश शर्मा, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के पर्यवेक्षण में श्री रणधीर कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना त्रिलोकपुर के कुशल निर्देशन में त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के समस्त बालिका इंटरमीडिएट कॉलेजों को चिन्हित कर माह के प्रत्येक शनिवार छात्राओं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत बनाने व मनोबल बढ़ाने के लिए महिला आरक्षी दिव्या सिंह जो पॉलिटिकेनिक की छात्रा रह चुकी है, उनके द्वारा छात्राओं के साथ दौड़ करना, व्यायाम तथा योग कराना एवं उनको मानसिक रूप से मजबूत बनाकर उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है ।

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 10-01-2021

प्रभारी पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना चिल्हिया एवं शोहरतगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया ।

आज दिनांक 10-01-2021 को श्री मायाराम वर्मा, प्रभारी पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना चिल्हिया एवं शोहरतगढ़ का निरीक्षण किया गया, सर्वप्रथम महोदय द्वारा मालखाना, शस्त्रागार, लॉक-अप, मेस, थाना कार्यालय, बैरिक एवं शौचालय तथा स्नानागार का निरीक्षण कर साफ-सफाई हेतु प्रभारी निरीक्षकगण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया, महोदय द्वारा थाना शोहरतगढ़ पर बन रहे नवनिर्मित विवेचना कक्ष तथा बैरिक निर्माण हेतु चिन्हित भूमि का भी निरीक्षण किया गया । थाने के विभिन्न अभिलेखों का भी निरीक्षण गहनता से किया गया, सम्पूर्ण समाधान दिवस रजिस्टर, समाधान दिवस रजिस्टर, भूमि भवन रजिस्टर एवं मालखाना रजिस्टर एवं अन्य अपूर्ण अभिलेखों को तत्काल पूर्ण करने हेतु महोदय द्वारा निर्देशित किया गया । थाना परिसर की साफ-सफाई का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया । आईजीआरएस सन्दर्भों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश भी दिये गये । महोदय द्वारा सघन चेकिंग हेतु नियमित एवं रूटीन पैदल गश्त, वाहन चेकिंग, बैंक चेकिंग, संदिग्ध आदि की चेकिंग प्रभावी तरीके से थानाक्षेत्र में कराने एवं समय-समय पर चेकिंग करते रहने हेतु निर्देशित किया गया । महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु समस्त उप-निरीक्षकगण को अपने-अपने कुशल पर्यवेक्षण में पूर्णनिष्ठा एवं निष्पक्ष रूप से कार्यवाही कराते हुये बेहतर परिणाम उपलब्ध कराने हेतु कहा गया । उक्त निरीक्षण के दौरान श्री दिनेश चन्द्र चौधरी, प्रभारी निरीक्षक चिल्हिया एवं श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़, पीआरओ. हरिओम कुशवाहा व थाना चिल्हिया तथा शोहरतगढ़ पर नियुक्त समस्त 30नि0/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।